

**आवास किराया भत्ता प्रदान करने हेतु संस्थान कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र**  
**CERTIFICATE TO BE FURNISHED BY INSTITUTE EMPLOYEES FOR GRANT OR HOUSE RENT ALLOWANCE**

1. मैं प्रमाणित करता हूँ कि (नियमों के तहत सरकारी आवास के लिए आवेदन के बाद भी) मुझे सरकारी आवास के आबंटन को मना कर दिया है।  
उस अवधि के दौरान जिसके लिए भत्ते का दावा किया गया है।  
I certify that I (have applied for the Government accommodation in accordance with the Prescribed Procedure but) have not been provided with Government accommodation (have refused the allotment of Government accommodation) during the period in respect of which the allowance is claimed.
2. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं किराये/अपने/अपनी पत्नी/पति/पुत्र/पुत्री/माता/पिता/एक अविभाज्य हिंदू परिवार जिसमें कि मैं सह-भागीदार हूँ, आवास में निवास करता हूँ।  
I certify that I am residing in a house hired/owned by me/my wife/husband/son/daughter/father/mother/a Hindu undivided family in which I am a coparcener.
3. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं कुछ राशि किराये में व्यय कर रहा हूँ।  
किराये में अंशदान कर रहा हूँ।  
I certify that I am incurring some expenditure on rent.  
contributing towards rent.

**अथवा / OR**

- मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरा आवास/अविभाजित हिंदू परिवार का जिसमें कि मैं सह-भागीदार हूँ और जिसमें कि मैं निवास करता हूँ इसकी रेंट वैल्यू दिनांक 27.11.65 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ.2(37) ई III (बी) 64 के अनुच्छेद 7 में विनिर्दिष्ट के अनुरूप है।  
I certify that the rent value of the house owned by me/owned by a Hindu undivided family in which I am a coparcener and in which I am residing is ascertainable in the manner specified in para 7 of O.M. No.F.2(37)-E.III(b) 64, dated 27.11.65. I certify that I am paying /contributing towards house or property tax.
4. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं अपने माता-पिता (बच्चे) राज्य/केन्द्रीय सरकार स्वायत्त शासी निकाय, सार्वजनिक उपक्रम अथवा अर्धशासकीय संगठन जैसे कि नगरपालिका, पोर्टट्रस्ट आदि के सरकारी कर्मचारी को आबंटित रेंट फ्री आवास में साझीदार नहीं हूँ।  
I certify that I am not sharing accommodation allotted to my parent (child) by the State/Central Government an autonomous public undertaking or Semi-Government Organisation such as municipality, port trust etc. allotted rent-free to another Government Servant.
5. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे पति/पत्नी/बच्चे/माता-पिता जो कि मेरे साथ ही रहते हैं/केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त शासी निकाय/लोक उपक्रम या अर्ध-सरकारी संगठन जैसे कि नगर पालिका, पोर्ट ट्रस्ट आदि के आबंटित आवास में निवास करते हैं, और केन्द्रीय/राज्य सरकार स्वायत्तशासी निकाय/लोक उपक्रम या अर्धसरकारी संगठनों जैसे कि नगरपालिका, पोर्ट ट्रस्ट आदि से आवास किराया नहीं प्राप्त कर रहे हैं।  
I certify that my husband/wife/children/parents who is are sharing accommodation with me allotted to another employee of the Central/State Government/autonomous public undertaking or Semi-Government Organisations like municipality, port trust etc., is/are not in receipt of house rent allowance from the Central/State Government autonomous public undertakings or Semi-Government Organisation like municipality, port trust etc.
6. मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मेरी पत्नी/पति को केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्त लोक उपक्रमों या अर्ध सरकारी संगठनों जैसे कि नगरपालिका/पोर्ट ट्रस्ट से आवास आबंटित नहीं किया गया है।  
I also certify that my wife/husband has not been allotted accommodation at some station by the Central/State Government/autonomous public undertaking or Semi-Government organisation such as municipality, port trust etc.

हस्ताक्षर

Signature .....

पदनाम

Designation .....

दिनांक :  
Date

घर का पता

House Address .....

यदि सरकारी कर्मचारी सरकारी आवास का पात्र नहीं है तो कोष्ठकों में दर्शाये गये वाक्यों को काट दें या यह दिनांक 27.11.65 के कार्यालय ज्ञापन के 4 (बी) के उपबंधों के अधीन आता है या दिनांक 25.2.1977 के वित्त मंत्रालय के का.ज्ञा.सं. 11011/1/ई-II(बी) 75 की शर्तों में आवास किराया भत्ता हेतु पात्रता के लिए सरकारी आवास हेतु उन्हें आवेदन करने में आपत्ति नहीं है।

The words shown in brackets may be omitted if the Government servant is not eligible for Government accommodation or if his case is covered by Notes under paragraphs 4(b) of the O.M. No. dated 27-11-65 or where it is not obligatory for him to apply for government accommodation for eligibility for house rent allowance in terms of Ministry of Finance O.M. No. 11011/1/E-II(B)/75, dated 25.2.1977.

सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने आवास या एक अविभाजित हिन्दू परिवार जिसमें कि वह सहयोगी है, द्वारा भरा जाए।

\*\*To be furnished by a Government servant living in his own house or in a house owned by a Hindu undivided family in which he is a coparcener.

उन सरकारी कर्मचारियों द्वारा भरा जाए जिनकी पत्नी, पति, पुत्र, पिता या माता को सरकारी आवास मिला है और वह उनके साथ रह रहे हैं।  
To be furnished by another Government Servant being the wife, husband, son, daughter, father or mother of the Government Servant owning the house who is sharing accommodation with the later.

दिनांक : ..... से आवास किराया भत्ता की संस्तुति की जाती है।  
HRA recommended w.e.f. ....

Counter Signed by Admn. Officer/AAO(ESTT.)